



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3808]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2019/अग्रहायण 1, 1941

No. 3808]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2019/AGRAHAYANA 1, 1941

अंतरिक्ष विभाग

अधिसूचना

बेंगलूर, 29 अक्टूबर, 2019

का.आ. 4235(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1976 को पुनःसंशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

- (1) ये नियम अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन नियम, 2019 कहलायेंगे।
- (2) ये सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1976 में दी गई मौजूदा अनुसूची में, अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के निम्नलिखित केंद्र शामिल किए जाते हैं:

इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स (आई.पी.आर.सी.)				
पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियाँ लगाने हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं लगाई जाने वाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय अधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ति	
1	2	3	4	5
समूह 'ब' (i) वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष

(ii) प्रशासनिक एवं अन्य पद	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
		प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन	(i) से (iv) तक	निदेशक
समूह 'ग'	प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन	प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन	सभी	निदेशक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv) तक	प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन

समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एच.एस.एफ.सी.)				
पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियाँ लगाने हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं लगाई जाने वाली शास्तियाँ (नियम 8 के संदर्भ में)		अपीलीय अधिकारी
		प्राधिकारी	शास्ति	
1	2	3	4	5
समूह 'ख'	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष
(i) वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद		नियंत्रक	(i) से (iv) तक	निदेशक
(ii) प्रशासनिक एवं अन्य पद	नियंत्रक	नियंत्रक	सभी	निदेशक
		व. प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन	(i) से (iv) तक	नियंत्रक
समूह 'ग'	व. प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन	व. प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन	सभी	नियंत्रक
		व. प्रशासन अधिकारी	(i) से (iv) तक	व. प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन

[सं. ई.14015/1/2012-IV]

संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : मुख्य नियम भारत सरकार के दिनांक 01.04.1976 के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 01.04.1976 की सं. एस.ओ. 270(ई.) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदनुसार निम्नांकित द्वारा संशोधित किए गए हैं:-

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	एस.ओ. सं.	दिनांक
1	2/10(32)/76-I	10.02.1977	780	12.03.1977
2	2/10(32)/76-I	16.05.1977	2127	25.06.1977
3	2/10(27)/76-I	01.08.1977	2709	27.08.1977
4	2/7(5)/77-I	15.02.1978	585	25.02.1978
5	2/7(5)/77-I	27.05.1978	1780	17.06.1978
6	2/9(12)/74-III	16.03.1979	1178	07.04.1979
7	9/4(1)/80-III	26.05.1980	1684	21.06.1980
8	9/4(1)/80-III	05.09.1980	2586	27.09.1980
9	9/4(1)/80-III	13.10.1980	3299	29.11.1980
10	9/4(1)/80-III	13.10.1980	3300	29.11.1980
11	9/4(1)/80-III	20.12.1980	215	17.01.1981
12	2/8(1)/81-I	28.08.1981	2592	03.10.1981
13	2/8(1)/81-I	16.07.1982	3113	04.09.1982
14	2/9(1)/83-I(V)	29.07.1985	4280	14.09.1985

15	2/5(1)/85-V	02.01.1986	510	08.02.1986
16	2/9(1)/83-I(V)	02.01.1986	511	08.02.1986
17	2/5(1)/86-V	17.03.1986	1309	29.03.1986
18	2/5(2)/86-V	20.10.1986	3874	15.11.1986
19	2/5(1)/90-VI	01.01.1991	99	09.02.1991
20	2/5(2)/86-V(VI)(Vol.III)	15.11.1991	334	01.02.1992
21	2/5(1)/91-VI	23.10.1992	2891	21.11.1992
22	2/5(1)/95-V	24.03.1995	1029	15.04.1995
23	2/5(1)/91-V	12.10.1995	2856	28.10.1995
24	2/5(1)/91-V	27.03.1996	1241	20.04.1996
25	2/5(1)/95-V	23.12.1997	83	10.01.1998
26	2/5(1)/98-V	30.06.2000	1763	05.08.2000
27	2/5(1)/98-V	27.12.2000	34	13.01.2001
28	2/5(1)/98-V	24.01.2001	254	10.02.2001
29	2/5(1)/98-V	18.03.2004	804	28.03.2004
30	4/5/1/2004-V	22.06.2005	2489	16.07.2005
31	4/5/1/2004-V	31.01.2006	544	11.02.2006
32	4/5/1/2004-V	20.11.2007	3434	08.12.2007
33	4/5/1/2004-V	01.09.2008	2760	04.10.2008
34	4/5/1/2004-V	21.05.2009	1538 (₹.)	23.06.2009
35	E.14015/1/2012-IV	06.03.2013	830 (₹.)	26.03.2013
36	E.14015/1/2012-IV	04.10.2017	424(₹.)	30.01.2018
37	E.14015/1/2012-IV	25.01.2019	229	16.02.2019

DEPARTMENT OF SPACE

NOTIFICATION

Bangalore, the 29th October, 2019

S.O. 4235(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, namely:-

- (1) These rules may be called the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the existing Schedule appended to the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, the following Centres of Indian Space Research Organization (ISRO) under Department of Space (DOS) are added.

ISRO PROPULSION COMPLEX (IPRC)				
Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
Group B				
(i) Scientific & Technical posts	Director	Director	All	Chairman
(ii) Administrative & other posts	Director	Director	All	Chairman
		Head, Personnel & General Administration	(i) to (iv)	Director
Group C	Head, Personnel & General Administration	Head, Personnel & General Administration	All	Director

		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Head, Personnel & General Administration
HUMAN SPAC FLIGHT CENTRE (HSFC)				
Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to Rule 8)		Appellate Authority
		Authority	Penalty	
1	2	3	4	5
Group B		Director	All	Chairman
(i) Scientific & Technical posts	Director	Controller	(i) to (iv)	Director
(ii) Administrative & other posts	Controller	Controller	All	Director
		Sr. Head, Personnel & General Administration	(i) to (iv)	Controller
Group C	Sr. Head, Personnel & General Administration	Sr. Head, Personnel & General Administration	All	Controller
		Sr. Administrative Officer	(i) to (iv)	Sr. Head, Personnel & General Administration

[No. E. 14015/1/2012-IV]

SANDHYA VENUGOPAL SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide No. S.O. 270(E) dated 01.04.1976 in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated 01.04.1976 and have been subsequently amended by:-

Sl. No.	Notification No.	Date	S.O. No.	Date
1	2/10(32)/76-I	10.02.1977	780	12.03.1977
2	2/10(32)/76-I	16.05.1977	2127	25.06.1977
3	2/10(27)/76-I	01.08.1977	2709	27.08.1977
4	2/7(5)/77-I	15.02.1978	585	25.02.1978
5	2/7(5)/77-I	27.05.1978	1780	17.06.1978
6	2/9(12)/74-III	16.03.1979	1178	07.04.1979
7	9/4(1)/80-III	26.05.1980	1684	21.06.1980
8	9/4(1)/80-III	05.09.1980	2586	27.09.1980
9	9/4(1)/80-III	13.10.1980	3299	29.11.1980
10	9/4(1)/80-III	13.10.1980	3300	29.11.1980
11	9/4(1)/80-III	20.12.1980	215	17.01.1981
12	2/8(1)/81-I	28.08.1981	2592	03.10.1981
13	2/8(1)/81-I	16.07.1982	3113	04.09.1982
14	2/9(1)/83-I(V)	29.07.1985	4280	14.09.1985
15	2/5(1)/85-V	02.01.1986	510	08.02.1986
16	2/9(1)/83-I(V)	02.01.1986	511	08.02.1986
17	2/5(1)/86-V	17.03.1986	1309	29.03.1986
18	2/5(2)/86-V	20.10.1986	3874	15.11.1986
19	2/5(1)/90-VI	01.01.1991	99	09.02.1991
20	2/5(2)/86-V(VI)(Vol.III)	15.11.1991	334	01.02.1992
21	2/5(1)/91-VI	23.10.1992	2891	21.11.1992

22	2/5(1)/95-V	24.03.1995	1029	15.04.1995
23	2/5(1)/91-V	12.10.1995	2856	28.10.1995
24	2/5(1)/91-V	27.03.1996	1241	20.04.1996
25	2/5(1)/95-V	23.12.1997	83	10.01.1998
26	2/5(1)/98-V	30.06.2000	1763	05.08.2000
27	2/5(1)/98-V	27.12.2000	34	13.01.2001
28	2/5(1)/98-V	24.01.2001	254	10.02.2001
29	2/5(1)/98-V	18.03.2004	804	28.03.2004
30	4/5/1/2004-V	22.06.2005	2489	16.07.2005
31	4/5/1/2004-V	31.01.2006	544	11.02.2006
32	4/5/1/2004-V	20.11.2007	3434	08.12.2007
33	4/5/1/2004-V	01.09.2008	2760	04.10.2008
34	4/5/1/2004-V	21.05.2009	1538(E)	23.06.2009
35	E.14015/1/2012-IV	06.03.2013	830(E)	26.03.2013
36.	E.14015/1/2012-IV	04.10.2017	424(E)	30.01.2018
37.	E.14015/1/2012-IV	25.01.2019	229	16.02.2019